



एक कदम पारदर्शिता की ओर  
**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग**  
न्यूजलेटर - जुलाई - 2022



**National Commission For Scheduled Castes**

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,  
New Delhi-110 003

# राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग न्यूजलेटर

वर्ष: 02 अंक: 02 जुलाई 2022

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई-मेल : [singh.rr9@gmail.com](mailto:singh.rr9@gmail.com)

[@srajeshranjan](https://twitter.com/srajeshranjan)

पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आगामी 15 अगस्त को देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे करेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का यह अंक आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है। आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का यह चौदहवां संस्करण है। इस संस्करण में हमने जुलाई माह के दौरान आयोग द्वारा किए गए सभी कार्यों जिसमें कई सरकारी संस्थानों में अनुसूचित जाति आरक्षण नीति का कार्यान्वयन के लिए समीक्षा बैठक, राज्य कार्यालयों में मामलों की सुनवाई, मुख्यालय में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों को शामिल किया गया है। मासिक पत्रिका का यह उद्देश्य है कि आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों या अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ होने वाले अत्याचारों पर किए जा रहे तत्काल कार्रवाई के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपका यह सहयोग आगे भी मिलते रहे, इसकी हम अपेक्षा करते हैं।

धन्यवाद

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

**011 - 24620435 & 24606802**

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,  
New Delhi - 110003


website: <http://ncsc.nic.in>

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

<https://ncsc.nagd.in/>

**02** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग - न्यूजलेटर

National Commission  
for Scheduled Castes



**SHRI VIJAY SAMPLA  
CHAIRMAN**




**SHRI ARUN HALDER  
VICE CHAIRMAN**



**DR. ANJU BALA  
MEMBER**



**SHRI SUBHASH  
RAMNATH PARDHI  
MEMBER**



डॉ. भीमराव अंबेडकर



@NCSC\_Gol




@NCSC.Gol



@ncsc\_goi

# माननीय अध्यक्ष का संदेश



SHRI VIJAY SAMPLA  
CHAIRMAN

इस स्वतंत्रता दिवस के दिन देश की आजादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में यह काफी हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के प्रकाशन को भी एक साल से ज्यादा का बीत चुका है।

यह मासिक पत्रिका का चौदहवां अंक है। आजादी का अमृत महोत्सव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित है। इसमें सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्य योजनाओं के साथ-साथ व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज की प्रतिबद्धताओं को शामिल किया गया है जो हमारे विचारों को साकार करने में मदद करते हैं और सामूहिक रूप से बेहतर कल बनाने में हमारी मदद करते हैं।

आयोग भी इसी दिशा में प्रयास कर रहा है ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को समाज में बराबरी और भेदभाव मुक्त समाज मिल सके। इस खाई को पाटने के लिए आयोग अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए आयोग ने जुलाई माह में दौरान कई राज्यों का आधिकारिक दौरा कर संस्थानों व संभागों में अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की हैं।

साथ ही आयोग को मिलने वाली शिकायतों को भी काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। ऐसी ही एक शिकायत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से जुड़ा है। इस मामले में आयोग ने काफी सख्ती दिखाई है। ये मामला यह दर्शाने के लिए काफी है कि जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अभी भी कई राज्यों में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है।

आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोग को तकनीकी तौर पर भी मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है ताकि देश के दुरस्थ क्षेत्रों के लोगों का सीधी पहुंच आयोग मुख्यालय तक हो सके।

अंत में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

## विजय सांपला

अध्यक्ष,

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार





## IDBI बैंक के कामकाज पर समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बनी आरक्षण नीति की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। इस समीक्षा बैठक के लिए आयोग का एक दल मुंबई पहुंचा था।

इस दल की अगुवाई आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने की। इस दौरान आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में आयोग के संयुक्त सचिव श्री जानेश्वर कुमार सिंह, निदेशक श्री कौशल कुमार, निदेशक (सलाहकार) श्री अजित कुमार साहू व अवर सचिव श्री किशन चंद भी मौजूद रहे।





# समीक्षा बैठक



## सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आरक्षण नीति समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आज जुलाई माह में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अनुसूचित जाति आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु आयोग ने समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में संबंधित एससी/एसटी संगठनों के अलावा बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जुलाई माह के दौरान आयोग का एक दल बैंक की समीक्षा बैठक के लिए मुंबई पहुंचा। इस दल का नेतृत्व आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने किया। इस दल में आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में आयोग के संयुक्त सचिव श्री जानेश्वर कुमार सिंह, निदेशक श्री कौशल कुमार, निदेशक (सलाहकार) श्री अजित कुमार साहू व अवर सचिव श्री किशन चंद भी मौजूद रहे।





## समीक्षा बैठक



# आरक्षण नीति जांच के लिए SIDBI की समीक्षा बैठक



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण नीति कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक की अगुवाई माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने की। इस दौरान आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी मौजूद रहे। इससे पहले SIDBI के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री शिवसुब्रमण्यम रमन ने आयोग के माननीय अध्यक्ष से भेंटकर अनुसूचित जातिवर्ग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।



NCSC has directed the formation of a three-member committee to look into the complaints of atrocities on people from SCST community by, university

On July 1, National Commission for Scheduled Caste issued summons to the Vice-Chancellor of Jamia Millia Islamia, Professor Najma Akhtar, to appear in person before the Commission on July 19, 2022. The summons was issued by the Chairman of the Commission in a case related to caste-based atrocities and removing the constitutionally guaranteed reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in appointment and promotion by the university authority based on the complaints filed by one Harendra Kumar before the Commission. Notably notices were served by the Commission to the University earlier as well, but the University Authorities failed to comply, following which the Commission had to use its powers to issue summons to the VC.

### The case related to caste-based atrocities

In his complaint, Kumar, who belonged to Scheduled Caste, alleged that he had faced discrimination by the University authorities. Kumar was appointed as a computer teacher in a school run by the University. He alleged that he was illegally terminated from the University from his job following a conspiracy hatched against him by the top officials of the University. The Commission had summoned the VC in the case in 2021 as well.



Home / Cities / Chandigarh / Punjab moves HC against NCSC order to give quota benefit in jobs at AG office

## Punjab moves HC against NCSC order to give quota benefit in jobs at AG office

The move comes days after the Punjab Department of Home Affairs and Justice, on May 27, NCSC stating that reservation to scheduled caste candidates is applicable while engaging various categories of law officers in the office of Advocate General.

Written by Jagpreet Singh Sandhu | Chandigarh | Updated: June 30, 2022 8:57:33 am



← आत्मा की ज्वाला 21 जुला...

## राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार रहे दौर पर

विभिन्न संगठनों से जनसुनवाई पश्चात अधिकारियों की ली बैठक



## Two lakh SC students drop out of colleges in Punjab due to non-payment of dues

The data was given by the National Commission for Scheduled Caste. Its chairperson Vijay Sampla said that an explanation from the state government has been sought

Edex Live Edex Live



According to the National Commission for Scheduled Caste (NCSC), around two lakh students from the Scheduled Caste (SC) category dropped out of colleges in Punjab due to non-payment of dues under a scholarship scheme worth about Rs 2,000 crore by the state government. This came to light on Wednesday, July 20. NCSC chairperson Vijay Sampla said that the Commission has sought an explanation from the state government on why the money has not been paid to colleges, despite the payment of the dues by the Central Government. He added that the Punjab government has been asked to give an explanation by next Wednesday, as per a PTI report.



# खबरों में आयोग out of college Punjab due to non-payment of scholarship state'

ET Online and Agencies • Last Updated: Jul 20, 2022, 07:28 PM IST

**Synopsis**  
The allegations came a week after Punjab Chief Minister Bhagwant Mann ordered a probe into alleged irregularities in the post-matric scholarship scheme that had surfaced during the previous Congress regime in the state.



The **National Commission for Scheduled Caste** today alleged that around two lakh students from the Scheduled Caste category in Punjab dropped out of colleges as the Congress-ruled state government failed to pay them scholarship money, getting funds from the Centre.

The Commission has now sought an explanation from the state government by next Wednesday on why the money has not been paid to colleges for the payment of dues by the Centre.

"We have taken suo motu cognisance in the matter. There have been many complaints from SC students that they are not being allowed in colleges as the government has not paid their fees. There were around three lakh students who benefited from the scheme in 2017 and the number dropped to 1-1.25 lakh in 2020. When we asked the state government, they said these children dropped out," NCSC chairperson **Vijay Sampla** was quoted as saying.

100 Nights Free Trial / 100% Refund

**पंजाब में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने पर दो लाख एससी छात्रों ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ी**

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विजय साम्पला ने कहा है कि इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। आयोग ने पंजाब सरकार से आगेले सुधारा तक अपना कार्रवाई करना देने को कहा है।

ThePrint

POLITICS GOVERNANCE ECONOMY DEFENCE INDIA FEATURES OPINION EVENTS VIDEO MORE

Home • India • 2 lakh SC students dropped out of colleges in Punjab due to...

## 2 lakh SC students dropped out of colleges in Punjab due to non-payment of scholarship by state: NCSC

PTI 20 July 2022 03:04 pm IST

Like 0

Text Size: A- A+

Most Popular

Summoning Sonia Gandhi to ED will raise public sympathy, BJP knows it, wants it

Zainab Sikander - 19 July 2022

Why Dhankhar and Murmu are perfect fit in Modi's Mission 2024

D.K. Singh - 18 July 2022

Is Israeli writer Yuval Harari a real scholar or a fake: Questions as experts launch new assault

Sandhya Bamesh - 17 July 2022

NEWS 18

CHANGE LANGUAGE English WATCH LIVE TV DOWNLOAD NEWS18 APP

Trending Topics: #Movies #Presid

HOME SHOWSHA POLITICS INDIA CRICKET WORLD EDUCATION BUSINESS BUZZ OPINION PHOTOS VIDEO

Latest Board Exam Results Movies Lifestyle Explainers Tech Auto Sports Web Stories Live TV Cryptocurrency #ItsNotOK

INDIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS 2022

LIVE RESULTS

DROUPADI MURMU

VOTES POLLED: 0 VALUE: 0

0.00% DROUPADI MURMU

## Around 2 Lakh SC Students Dropped Out of Colleges in Punjab Due to Non-payment of Scholarship: NCSC

PTI • Last Updated: JULY 20, 2022, 18:04 IST • New Delhi, India



NCSC chairperson Vijay Sampla said the Commission has sought an explanation from the state government (Representative image)

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann ordered a comprehensive probe into alleged irregularities in the post-matric scholarship scheme that had surfaced during the previous Congress regime in the state.

Follow us: Facebook, Twitter, Telegram, Google News

Around two lakh students from the Scheduled Caste category dropped out of college due to non-payment of dues under a scholarship scheme worth around Rs 2,000 crore by the Punjab government, the National Commission for Scheduled Caste said on Wednesday. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann ordered a comprehensive probe into alleged irregularities in the post-matric scholarship scheme that had surfaced during the previous Congress regime in the state.

NCSC chairperson Vijay Sampla told reporters that the Commission has sought an explanation from the state government on why the money has not been paid to colleges despite the payment of dues by the Centre. "We have taken suo motu cognisance in the matter. There have been many complaints from SC students that they are not being allowed in colleges as the government has not paid their fees. There were around three lakh SC students who benefited from the scheme in 2017 and the number dropped to 1-1.25 lakh in 2020. When we asked the state government, they said these children dropped out," he said.

महानगर टाइम्स

उदयपुर-आसपास

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष ने उदयपुर सभाग के जिला कलेक्टर, एसपी एवं जिला अधिकारियों को बैठक ली

**योजनाओं में एससी वर्ग को अधिकाधिक लाभान्वित करने पर जोर**

एससी एसटी एक्ट में प्रभावी कार्रवाई करें



## उदयपुर संभाग में समीक्षा बैठक

राजस्थान के उदयपुर संभाग में अनुसूचित जाति आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु आयोग ने समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक के लिए आयोग का एक दल माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार ने की। इस समीक्षा बैठक में उदयपुर के डिविजनल कमिश्नर, आईजीपी, डीएम, एसपी व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।



## SJVN प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने हिमाचल प्रदेश राज्य का दौरा किया। दल की अगुवाई माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने की। इस दौरान राजधानी शिमला में Satluj Jal Vidyut Nigam LTD. (SJVN) में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर SJVN के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।



## भरतपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी की अगुवाई में राजस्थान राज्य के भरतपुर का दौरा किया। यहां पर आयोग ने भरतपुर जिले के अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति संगठनों एवं अधिकारियों के साथ अनुसूचित जातिवर्ग से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।



## त्वरित कार्रवाई के निर्देश

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार ने नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में आये हुए व्यक्तियों की शिकायतों पर सुनवाई की।

शिकायतों को सुनने के बाद माननीय उपाध्यक्ष ने लोगों की शिकायतों को त्वरित व न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया। इस दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।



## आयोग के दल ने किया चंडीगढ़ का दौरा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्य डॉ. अंजू बाला ने चंडीगढ़ का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर कर्मचारियों की समस्याओं एवं उनके समाधान से सम्बन्धित विषयों पर विचार विमर्श किया। साथ ही विभिन्न एससी/एसटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिष्टाचार भेंट कर अपनी समस्याओं से संबंधित जापान सौंपा तथा समाधान हेतु विभिन्न विषयों पर चर्चा की।



## नागपुर में सुनी लोगों की समस्याएं

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने महाराष्ट्र राज्य का दौरा किया।

इस दौरान माननीय सदस्य महाराष्ट्र के नागपुर में अनुसूचित जातिवर्ग के व्यक्तियों से मिले।

यहां पर उन्होंने इन लोगों की शिकायतें सुनी। शिकायतों को सुनने के बाद माननीय सदस्य ने उनकी शिकायतों पर त्वरित व न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु आश्वासन दिया।





# सोशल मीडिया में आयोग

Instagram

Search

Log In Sign Up



ncsc\_goi

Follow

745 posts

565 followers

8 following

NCSC

Official handle of National Commission for Scheduled Castes. For registering complaints, please write to us at [complaint@ncsc.gov.in](mailto:complaint@ncsc.gov.in)  
[ncsc.nic.in](http://ncsc.nic.in)

POSTS

VIDEOS

TAGGED



**National Commission for Sched Castes**  
1.8K followers · 2 following

Posts About Mentions Reviews Followers Photos More

**Intro**  
Official handle of National Commission for Scheduled Castes. For registering complaints, please write

Page - Government organisation  
NCSC, 5th floor Lok Nayak Shastri Market New Delhi, Delhi, India, Delhi  
1800 11 8888  
[complaint@ncsc.gov.in](mailto:complaint@ncsc.gov.in)  
[ncsc.nic.in](http://ncsc.nic.in)  
Not yet rated (1 review)

Photos See All Photos



Privacy Terms Advertising Ad choices Cookies More Meta © 2022

**Posts**

National Com

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए, आरक्षण में

#IDBIBank #IDBI\_Bank

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए, आरक्षण में

#IDBIBank #IDBI\_Bank

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए, आरक्षण में

#IDBIBank #IDBI\_Bank

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए, आरक्षण में

#IDBIBank #IDBI\_Bank

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए, आरक्षण में

#IDBIBank #IDBI\_Bank

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए, आरक्षण में

#IDBIBank #IDBI\_Bank

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए, आरक्षण में

#IDBIBank #IDBI\_Bank

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए, आरक्षण में

#IDBIBank #IDBI\_Bank

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए, आरक्षण में

#IDBIBank #IDBI\_Bank

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए, आरक्षण में

#IDBIBank #IDBI\_Bank

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए, आरक्षण में

#IDBIBank #IDBI\_Bank

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए, आरक्षण में

- Home
- Explore
- Communities
- Notifications
- Messages
- Bookmarks
- Profile
- More

Tweet

National Commission for Scheduled Castes  
1,335 Tweets



**National Commission for Scheduled Castes**  
@NCSC\_Goi

Official handle of National Commission for Scheduled Castes. For registering complaints, please write to us at [ncsc.nic.in](mailto:ncsc.nic.in)

New Delhi, India [ncsc.nic.in](http://ncsc.nic.in) Joined March 2021

30 Following 8,061 Followers

Followed by Arun Halder, Subhaish Parthi, and 8 others you follow

Tweets Tweets & replies Media Likes

National Commission for Scheduled Castes @NCSC\_Goi · 3m

#Review meeting by National Commission for Scheduled Castes on Implementation of #reservation policy for #Scheduled\_Castes in IDBI Bank Ltd at #Mumbai on 01.07.2022. #NCSC #IDBIBANK

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग #article338 #ScheduledCastes @thevjaysampla @IDBI\_Bank



Search Twitter



You might like

- Dalit Times | दलित ... @DalitTime Follow
- Government of Raj... @RajGovOfficial Follow
- District Collectors ... @DCsofIndia Follow

Show more

What's happening

Bollywood films · LIVE  
Rocketry: The Nambi Effect releases in theatres  
Trending with #madhavan, #RocketryTheNambiEffect

#ItsHYTime  
Self-Charging Hybrid Electric SUV. Unveiling at 10:45 AM  
Promoted by Toyota India

Politics · Trending  
Justice Kant  
15.6K Tweets

Messages





आयोग के नई दिल्ली कार्यालय में विभिन्न जनपदों से आये हुए व्यक्तियों की शिकायतें सुनते माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी।



माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी से ओएनजीसी की सीएमडी डॉ. अल्का मित्तल ने आयोग कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान सामाजिक मुद्दों पर बातचीत हुई।

**National Commission For Scheduled Castes**  
5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,  
New Delhi-110 003